



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2011 (पौष 3, 1933)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2011 (PAUSA 3, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## विषय-सूची

पृष्ठ सं.

पृष्ठ सं.

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ..... 1639

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 1245

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 19

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ..... 2275

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... \*

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... \*

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... \*

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) ..... \*

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को

छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं ..... \*

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) ..... \*

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... \*

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... 4015

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस ..... \*

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... \*

भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं ..... 6063

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस ..... 1271

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के दर्जना वाला सम्पूरक ..... \*

## CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1639	Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....	1245	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .....	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence .....	19	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....	2275	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....	4015
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....	6063
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....	1271
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....	*

\*Folios not received.

## भाग I — खण्ड 1

## [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 29 नवम्बर 2011

संकल्प

सं. ई-11011/7/2008-हिन्दी--राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20015/45/87-रा.भा. (क-2) दिनांक 15.03.1988 तथा कार्यालय ज्ञापन सं. 1/20015/6/92-रा.भा. (क-2) दिनांक 10.06.1992 में निहित निर्देशों के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नानुसार गठन करती है :--

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

अध्यक्ष

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

संसदीय कार्य मंत्रालय

संसद सदस्य (लोक सभा)

(1) श्री सुरेश काशीनाथ तवारे

सदस्य

(2) श्री नीरज शेखर

सदस्य

संसद सदस्य (राज्य सभा)

(3) डॉ. रामदयाल मुण्डा

सदस्य

(4) श्री जी. एन. रतनपुरी

सदस्य

संसद सदस्य (संसदीय राजभाषा समिति)

(5) श्री मदनलाल शर्मा,

सदस्य

स्थानीय पता : 22, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड,  
नई दिल्ली-110001

स्थायी पता : ग्राम-पलाटन डाकघर-पलानवाला,  
तह.-अखनूर,  
जिला-जम्मू (जम्मू और कश्मीर)

(6) श्री श्रीगोपाल व्यास,

सदस्य

स्थानीय पता : 145, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली,  
स्थायी पता : श्री श्रीगोपाल व्यास,  
संसद सदस्य (राज्य सभा),  
149 एमआईजी, टाटीबध,  
रायपुर (छत्तीसगढ़)-492099

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्सवाई-68, सरोजिनी नगर,  
नई दिल्ली का प्रतिनिधि

गैर-सरकारी सदस्य :

(7) डॉ. महेश चंद्र गुप्त,

सदस्य

मकान नं. 316, सेक्टर-ए, पॉकेट-सी,  
वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070  
दूरभाष-011-26138429

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम), द्वितीय तल, 10788--89 झंडेवाला रोड, नवी करीम, नई दिल्ली-110055 का प्रतिनिधि

(8) डॉ. राजेन्द्र खिमाणी,

सदस्य

कुल सचिव, गुजरात विद्यापीठ,  
हिन्दी भवन, आश्रम रोड,  
अहमदाबाद-380014 (गुजरात)

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

(9) डॉ. लक्ष्मी पाण्डेय,

सदस्य

श्री सूर्यम, कुलपति निवास के सामने,  
कोर्ट रोड, 10ए, सिविल लाईन, सागर, (म. प्र.)

(10) फरीद चुगताई,

सदस्य

आवास : आर-52, द्वितीय तल,  
सर सैयद अपार्टमेंट,  
जोगाबाई एक्सप्रेसवे,  
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025

कार्यालय : आईएनएनटुडे, यू-202-I,  
टॉप फ्लोर, विकास मार्ग,  
शकरपुर, दिल्ली-110092

(11) कु. गरिमा पाण्डेय (लेखनी),

सदस्य

मार्फत श्री अजय तिवारी  
4/53, शाहजी स्ट्रीट,  
नुनहाई, फरूखाबाद (उ. प्र.)

(12) प्रतिमा चतुर्वेदी,

सदस्य

स्थानीय पता : बी-1/405, सत्यम अपार्टमेंट,  
वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली-110096  
स्थायी पता : डब्ल्यू-42, हमीरपुर रोड,  
कानपुर-208014 (उ. प्र.)

गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

(13) श्री हाजी रहमत खान

सदस्य

गांव मूंगस्का, तहसील अलवर,  
राजस्थान

(14) श्री इजराइल खान,

सदस्य

ग्राम बिलोहेडी, पोस्ट सांथलका,  
तहसील तिजारा, जिला अलवर  
राजस्थान

- (15) श्री मौ. सलीम सदस्य  
पुरानी सिविल कोर्ट के पास,  
बरामहल, शाहजहाँनाबाद,  
भोपाल, मध्य प्रदेश  
राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय)
- (16) सचिव सदस्य
- (17) संयुक्त सचिव सदस्य  
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
- (18) सचिव (अ. का.) सदस्य
- (19) अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार सदस्य
- (20) संयुक्त सचिव (आईएम) सदस्य
- (21) संयुक्त सचिव (पीपी) सदस्य
- (22) सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद् सदस्य
- (23) सचिव, मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सदस्य
- (24) प्रबंध निदेशक, एनएमडीएफसी सदस्य
- (25) सहायक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यक कार्य सदस्य
- (26) सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक, आयोग सदस्य
- (27) निदेशक संगणक केन्द्र, नई दिल्ली सदस्य
- (28) संयुक्त सचिव (प्रशासन) सदस्य-  
सचिव

## कार्यक्षेत्र

2. समिति का कार्य संविधान, राजभाषा अधिनियम व नियमों में राजभाषा के संबंध में किए गए उपबंधों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के निर्णयों और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों/अनुदेशों के कार्यान्वयन और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

## कार्यकाल

3. समिति का कार्यकाल समिति के गठन की तारीख से, निम्नलिखित बातों के अध्यधीन, सामान्यतः तीन वर्ष का होगा :--

- (क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक ही समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण खाली हुए स्थान पर मनोनीत सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- (घ) समिति के कार्यकाल की अवधि के बीच यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है, तो वह समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
4. समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा परन्तु यदि आवश्यक समझा गया तो यह अपनी बैठक किसी स्थान पर भी आयोजित कर सकती है।

## यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते

5. गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए, यात्रा तथा दैनिक भत्ता भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों तथा राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/20034/4/86-रा. भा. (क-2) दिनांक 22 जनवरी, 1987 में निहित निर्देशों के अनुसार दिया जाएगा।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

ई. आर. सोलोमन  
संयुक्त सचिव

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सं. क्यू-16012/2/2009, ई.एस.ए. (एन.एल.आई.)--जबकि वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, सैक्टर 24, नोएडा को समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (पंजाब संशोधन अधिनियम, 1957) के अंतर्गत एक समिति के रूप में पंजीकृत किया गया है।

और जबकि उक्त समिति के नियमों तथा विनियमों के नियम-III में इसके गठन का प्रावधान है।

अतः अब, उपर्युक्त समिति के नियम-III के अनुसरण में, और दिनांक 22 फरवरी, 2010 की पिछली अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, डॉ. सुभाष शर्मा को श्री एस. एस. राव के स्थान पर वी. वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा की सामान्य परिषद् में सदस्य के रूप में नामित किया जाता है।

कामगार संगठन से प्रतिनिधि :

डॉ. सुभाष शर्मा,  
अध्यक्ष, पंजाब शाखा इंटक  
74-एस.एफ. सरस्वती विहार,  
कपूरथला मार्ग,  
जालंधर-144008

सदस्य

रणबीर सिंह  
निदेशक

## परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

## संकल्प

सं. 69/1/2008/आरएंडडी-II/13497--भारत सरकार ने स्वर्गीय श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस 22 दिसम्बर को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य गणित शिक्षा तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ-साथ जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी इसके अनुप्रयोग की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है।

2. यह दिवस, गणित के क्षेत्र के पथ-प्रदर्शकों में से एक श्री श्रीनिवास रामानुजन को समर्पित है, जिनके 125वें जन्म दिवस समारोहों का आयोजन इस वर्ष प्रारंभ हो रहा है राष्ट्रीय गणित दिवस के आयोजन से भारत के लोग उनके जीवन तथा कार्यों से जुड़ सकेंगे और यह हमारी युवा पीढ़ी के एक बड़े समुदाय को प्रेरित करेगा।

रेवती अय्यर  
संयुक्त सचिव (अनुसंधान एवं विकास)

## MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

New Delhi-110003, the 29th November 2011

## RESOLUTION

No. E-11011/7/2008-Hindi—In pursuance of directions contained in Official Languages O.M. No. 11/20015/45/87-O.L. (A-2), dated 15.03.88 and O.M. No. 1/20015/6/92-O.L. (A-2), dated 10.06.1992, Govt. of India hereby constitutes Hindi Salahkar Samiti for Ministry of Minority Affairs. The composition of the Samiti and its functions etc. will be as under :—

Minister Minority Affairs (Additional Charge) Chairman  
State Minister in the Ministry of Minority Affairs Deputy Chairman

## Ministry of Parliamentary Affairs

## Member of Parliament (Lok Sabha)

1. Sh. Suresh Kashinath Taware Member
2. Sh. Neeraj Shekhar Member

## Member of Parliament (Rajya Sabha)

3. Dr. Ram Dayal Munda Member
4. Sh. G. N. Ratanpuri Member

## Member of Parliament (Parliamentary Committee on Official Language)

5. Sh. Madan Lal Sharma, Member  
Member of Parliament (Lok Sabha)

Local Address : 22, Dr. Rajendra Prasad Road  
New Delhi-110001

Permanent Add. : Vill.-Palatan  
P.O.-Pallanwala  
Tehsil-Akhmoor  
Distt.-Jammu (J & K)

6. Sh. Shrigopal Vyas Member  
Member of Parliament (Rajya Sabha)

Local Add : 145, North Avenue,  
New Delhi

Permanent Add. : Sh. Shrigopal Vyas,  
Member of Parliament  
(Rajya Sabha)  
149, M.I.G., Tatibandh,  
Raipur (Chhattisgarh))-492099

Representative of Central Secretariat Hindi Parishad, SY-68,  
Sarojini Nagar, New Delhi

7. Dr. Mahesh Chandra Gupta, Member  
H. No. 316, Sector-A, Pocket-C,  
Vasant Kunj, New Delhi-110070

Representative of All India Hindi Sanstha Sangh Community  
Centre (Delhi Nagar Nigam), IInd floor, 10788-89, Jhandewallan  
Raod, Navi Karim, New Delhi-110055

8. Dr. Rajendra Khimani Member  
Kul Sachive, Gujrat Vidyapeeth,  
Hindi Bhawan, Ashram Road,  
Ahmedabad-380014 (Gujarat)

Non Official Members nominated by Ministry of Minority Affairs

9. Dr. Lakshmi Pandey, Member  
Address : Sh. Suryam,  
Kulpati Niwas ke Samne  
Court Road, 10A, Civil Line,  
Sagar (M.P.)

10. Sh. Farid Chughtai Member  
Residence : R-52, IInd floor,  
Sir Sayyad Apartment  
Jogabai Extension, Jamia Nagar,  
New Delhi-110025

Office Add. : I. N. N. Today, U-202-I,  
Top floor, Vikas Marg,  
Shakarpur, Delhi-110092

11. Km. Garima Pandey (Lakhani) Member  
Address : C/o Sh. Ajay Tiwari,  
4/53, Shahji Street,  
Nunhai, Farrukhabad (U.P.)

12. Pratima Chaturvedi Member  
Local Address : B-1/405,  
Satyam Apartment  
Vasundhara Enclave,  
Delhi-96

Permanent Add. : W-42, Hamirpur Road,  
Kanpur-208014 (U.P.)

Non-Official Members nominated by Ministry of Home Affairs (Deptt. of O.L.)

13. Sh. Haji Rahamat Khan, Member  
Village-Mungaska. Tahsil-Alwar,  
Rajasthan

14. Sh. Israil Khan, Member  
Village-Bilohedi, Post-Santhlaka,  
Tahsil-Tizara, Distt. Alwar,  
Rajasthan

15. Sh. M. Salim, Member  
Near Old Civil Court, Baramahal,  
Shahjahanabad, Bhopal,  
Madhya Pradesh

Department of Official Languages (Ministry of Home Affairs)

16. Secretary Member
17. Joint Secretary Member

Ministry of Minority Affairs

18. Secretary (M.A) Member

19. Addl. Secretary & Financial Adviser	Member
20. Joint Secretary (IM)	Member
21. Joint Secretary (PP)	Member
22. Secretary Central Wakf/Council, New Delhi	Member
23. Secretary Maulana Azad Education Foundation	Member
24. Managing Director, NMDFC, New Delhi	Member
25. Assistant Commissioner, Linguistic Minorities, Allahabad	Member
26. Secretary, NCM, New Delhi	Member
27. Director, NIC, New Delhi	Member
28. Joint Secretary (A)	Member-Secretary

#### Functions of the Samiti

2. The functions of the Samiti are to render advice with regard to the implementation of the provisions relating to Official Language Hindi contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules, and Policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Department of Official Language relating to Official Language Hindi and also in regard to the Progressive use of Hindi in the Ministry of Minority Affairs.

#### Tenure

3. The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :

- A member, who is Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament.
- Ex-officio Member of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of Samiti.
- If a vacancy arises in the Samiti due to resignation, death etc. of the member, the member appointed on the vacancy shall hold office for the residual term of remaining period.
- If a person is nominated as a member in the middle period of tenure, he/she shall be member of residual term of remaining period.

4. The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi, but if considered necessary, it may hold its meetings at any other places also.

#### Travelling Allowances and other Allowances

5. Travelling allowances and Daily Allowances would be paid to the Non-official members of the Samiti for participating the meetings as per the direction contained in the Deptt. of Official Language's O.M. No. 11/20034/4/86-OL (A-2) dated 22.01.1987 and as per the rates by Govt. of India from time to time.

#### Order

Order that a copy of this resolution be communicated to all Members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Vice-President's Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries and Department of the Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

E. R. SOLOMAN  
Jt. Secy.

#### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 9th December 2011

No. Q-16012/2/2009-ESA (NLI)—Whereas the V. V. Giri National Labour Institute, Sector-24, Noida has been registered as a Society under Societies Registration Act 1860 (Punjab Amendment Act, 1957).

And Whereas Rule III of the Rules & Regulations of the said Society provides for its constitution.

Now, therefore in pursuance of Rule III of the aforesaid Society, and in partial modification of the earlier Notification of even number dated 22nd February 2010, Dr. Subhash Sharma has been nominated to the General Council of VVGNLI in place of Shri S. S. Rao as a member of the General Council of V. V. Giri National Labour Institute, Noida :

Representative from Workers' Organisation :

Dr. Subhash Sharma, Member  
President, Punjab Branch INTUC  
74-SF, Saraswati Vihar, Kapurthala Road  
Jalandhar-144008.

RANBIR SINGH  
Director

#### DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 19th December 2011

#### RESOLUTION

No. 69/1/2008/R&D-II/13497—The Government of India have resolved to celebrate every year 22nd December, the birth day of late Srinivasa Ramanujan, as the National Mathematics Day. The day seeks to focus the attention of people to mathematics education and its applications not only in Science & Technology but also in other areas of life.

2. The day is dedicated to Shri Srinivasa Ramanujan, one of the pioneers in the field of mathematics, whose 125th birth anniversary celebrations commence this year. Celebration of National Mathematics Day would connect his life and work to the people of India and thereby inspire a large section of our young generation.

REVATHY IYER  
Joint Secy. (R&D)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2011

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2011